



**Class – V Hindi Notes November**

**PORTION :**

- \* कविता : केरल की शोभा
- \* W.B. 7. अच्छे बच्चे
- \* निबंध : चिड़ियाघर
- \* गिनती : 21 – 40 ( लिखित )

**NOTES :** कविता : केरल की शोभा

श्रीफल का भंडार है केरल

धान की खेती होती है ।

सागर तट की सुंदरता ,

सबका मन हर लेती है ।

कटहल , केला , काजू , आम,

दिखते घर – घर उद्यान।

इलायची , जायफल , लोंग , मिर्च,

भरे रहते यहाँ बागान ।

**। श्रुतलेख : ( Dictation Words )**

1. केरल    2. भंडार    3. सुंदरता    4. उद्यान    5. लोंग    6. मिर्च

7. नृत्य। 8. प्रांत 9. राष्ट्र 10. पर्व 11. तिरुअनंतपुरम 12. बंदरगाह

## II शब्दार्थ : ( Word Meanings )

1. श्रीफल - नारियल - coconut
2. खेती - फ़सल उगाना - farming
3. सागर - समुद्र - sea
4. तट - किनारा - beach
5. सुंदरता - खूबसूरत - beauty
6. कटहल - एक फल - jackfruit
7. नृत्य - नाच - dance
8. शिक्षा - पढ़ाई - लिखाई - education
9. पर्व - त्योहार - festival
10. राष्ट्र - देश - nation
11. बंदरगाह - जहाँ पानी के जहाज़ खड़े होते हैं - port
12. उद्यान - बगीचा - garden

## III सही विकल्प चुनिए :

उत्तर:1. केरल उत्तर:2. कथकली उत्तर:3. केरल

## IV आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए :

उत्तर: 1. गाना उत्तर: 2. नहाना उत्तर: 3. खेलना

उत्तर: 4. पढ़ना उत्तर: 5. लिखना उत्तर: 6. खाना

## V चित्र देखकर अनुस्वार ( • ) और अनुनासिक ( ◡ )

उत्तर:1. रंग उत्तर: 2. माँ उत्तर: 3. रंगोली उत्तर: 4. चाँद

VI दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द बनाकर लिखिए :

1. धान - गान
2. केला - मेला
3. तट - वट
4. मन - तन
5. शिक्षा - भिक्षा
6. आगे - धागे

VII दिए गए शब्दों को शब्दकोश - क्रम में लिखिए :

क) ओणम काजू केला पर्व सागर

ख) आम केरल खेती तट हाथी

VIII समझिए और लिखिए :

सुंदर + ता = सुंदरता

ऊँचा + ई = ऊँचाई

सज + आवट = सजावट

राष्ट्रीय + ता = राष्ट्रीयता

अपना + त्व = अपनत्व

IX सही अर्थ से मिलान कीजिए :

BEAUTY - सुंदरता

EDUCATION - शिक्षा

DANCE - नृत्य

FESTIVAL - पर्व

X प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. केरल में किन मसालों के बागान हैं ?

उत्तर: केरल में इलायची , जायफल , लौंग और मिर्च के बागान हैं ।

2. केरल क्यों प्रसिद्ध है ?

उत्तर: केरल नारियल की उपज , कथकली और मोहनी अट्टम नृत्य तथा शिक्षा।  
के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने के कारण प्रसिद्ध है ।

3. कौन - से त्योहार केरल में नई बहार लेकर आते हैं ?

उत्तर: ओणम त्योहार केरल में नई बहार लेकर आता है ।

4. तिरुअनंतपुरम कहाँ की राजधानी है ?

उत्तर: 4. तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है ।

W.B. 7. अच्छे बच्चे

अभ्यास : ( EXERCISE )

I एक शब्द में उत्तर लिखिए :

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. बालक का नाम क्या था ?            | उत्तर: अमन      |
| 2. अमन की बहन कौन थी ?              | उत्तर: पूजा     |
| 3. अमन के दादा जी क्या पढ़ रहे थे ? | उत्तर: अखबार    |
| 4. पूजा पहले क्या करना चाहती थी ?   | उत्तर: गृहकार्य |

II उदाहरणों के अनुसार वाक्य पूरे कीजिए :

क) अमन नहा रहा था ।

ख) वह स्कूल जा रहा था ।

ग) मीना बोल रही थी ।

घ) दादी खा रही थी ।

III पढ़े समझें और लिखिए :

	में	तुम	वह
ख) वर्तमान	- मैं पढ़ता हूँ ।	तुम पढ़ते हो ।	वह पढ़ता है ।

भूत	-	मैं पढ़ा ।	तुम पढ़े ।	वह पढ़ा ।
भविष्यत	-	मैं पढ़ूँगा ।	तुम पढ़ते ।	वह पढ़ेगा ।
ग) वर्तमान	-	मैं जाती हूँ ।	तुम जाती हो ।	वह जाती है ।
भूत	-	मैं गई ।	तुम गई ।	वह गई ।
भविष्यत	-	मैं जाऊँगी ।	तुम जाओगी ।	वह जाएगा ।

IV सही शब्द चुनकर लिंग बदलिए:

1. बालक - बालिका
2. पापा - मम्मी
3. कुत्ता - कुतिया
4. बहन - भाई
5. दादी - दादा
6. बिल्ली - बिलाव

V निम्न वाक्यों को हिन्दी में लिखिए :

- उत्तर: 1. अमन पुस्तक पढ़ रहा था ।  
उत्तर: 2. कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे ।  
उत्तर: 3. उसके पापा पौधों को पानी दे रहे थे ।  
उत्तर: 4. उसकी बहन गृहकार्य कर रही थी ।  
उत्तर: 5. बिल्ली दूध पी रही थी ।

गतिविधि -2 Activity -2

1. यह पीला फूल है ।
2. वह पीली पतंग है ।
3. वहाँ हरा तोता है ।
4. औरत हरी साड़ी खरीद रही है ।

5. काला कौआ काँच - काँव करता है ।
6. काली बिल्ली दूध पी रही है ।
7. यह जग नीला है ।
8. मेरा अचानक नीली है ।

#### VI निबंध : चिड़ियाघर

1. चिड़ियाघर में कई तरह के जानवर एक साथ देखे जा सकते हैं ।
2. चिड़ियाघर में सभी जानवरों को अलग-अलग पिंजरों में रखा जाता है ।
3. चिड़ियाघर में घूमने और जानवरों को देखने का समय तय होता है ।
4. सभी चिड़ियाघरों में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता है ।
5. चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल के लिए कर्मचारी काम करते हैं ।

#### VII गिनती : ( 21 - 40)

इक्कीस - 21	इकतीस - 31
बाईस - 22	बत्तीस - 32
तेईस - 23	तैंतीस - 33
चौबीस - 24	चौंतीस - 34
पच्चीस - 25	पैंतीस - 35
छब्बीस - 26	छत्तीस - 36
सत्ताईस - 27	सैंतीस - 37
अट्ठाईस - 28	अड़तीस - 38
उनतीस - 29	उनतालीस - 39
तीस। - 30	चालीस - 40

-----\*\*\*\*\*-----